



MOL/ August 8, 2021

BSE Limited National Stock Exchange of India Limited

Corporate Relationship Department Listing Department,

1st Floor, New Trading Ring, Exchange Plaza, C-1, Block – G,

Rotunda Building, P.J. Towers, Bandra-Kurla Complex,

Dalal Street, MUMBAI 400001

Scrip Code: 521018

Bandra (East), MUMBAI - 400051

Scrip Code: MARALOVER

Sub: Submission of News-paper Cutting of Notice of 32nd Annual General Meeting, Remote E-Voting /E-Voting and Book Closure.

Dear Sir/ Madam,

In terms of Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed the copies of newspapers advertisement regarding completion of dispatch of Annual Report and Notice of 32nd Annual General Meeting through electronic mode published on 7th August, 2021 in "Business Standards" in English language and in "Nav Bharat" in Hindi language.

Please take the same on your record.

Thanking You,

Yours faithfully,

For MARAL OVERSEAS LIMITED

VIRENDRA KUMAR GARG COMPANY SECRETARY

FCS – 7321 Encl.: As above

Email: maral.investor@lnjbhilwara.com

Maral Overseas Limited

Corporate Office:

Bhilwara Tower, A-12 Sector-1, Noida - 201301 (NCR-Delhi), India

Fax: 91-120-4277841

Tele:91-120-4390300 (EPABX)

Website: www.maraloverseas.com GSTIN:-09AACCM0230B1Z8 Regd. Office & Works:

P.O. Maral Sarovar, A B Road

Vill. Khalbujurg 451660 Tehsil Kasrawad,

Dist Khargone (M.P.) India Tele: 91-7285-265401-405 Fax: 91-7285-265406

Website: www.lnjwhilwara.com CIN: L17124MP1989PLC008255 GSTIN:-23AACCM0230B1Zl



emami paper mills limited

Registered office: Acropolis, Unit 1, 15th Floor, 1858/1, Rajdanga Main Road, Kasba, Kolkata - 700107 Phone No. 033 66271301, email: investor.relations@emamipaper.com., website: www.emamipaper.in

		(₹/crores) Year Ended			
Particulars	30.06.2021 (Unaudited)	Quarter Ended 31.03.2021 (Audited)	30.06.2020 (Unaudited)	31.03.2021 (Audited)	
Total Income from operations (Net)	428.91	411.38	206.00	1,216.27	
Earning before Interest, Depreciation and Tax (EBITDA)	85.67	66.53	33.63	181.46	
Net Profit/(loss) for the period (before exceptional items and tax)	43.91	29.81	(10.81)	30.16	
Net Profit/(loss) for the period before tax (after exceptional items)	43.91	102.27	(10.81)	102.62	
Net Profit/(loss) for the period after tax (after exceptional items and tax)	31.99	47.28	(7.28)	51.06	
Total Comprehensive Income for the period (after tax)	39.37	49.66	(3.98)	77.02	
Paid up Equity Share Capital (Face value ₹ 2/- each)	12.10	12.10	12.10	12.10	
Other equity	-	-	-	283.84	
Earnings Per share (of ₹ 2 each)					
Basic (₹)	5.09	7.81	(1.20)	8.43	
Diluted (₹)	4.03	7.78	(1.20)	8.40	

The above is the extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarter end Financial Results are available on the website of BSE Limited at www.bseindia.com, on the website of National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and on the website of the Company at www.emamipaper.in For and on behalf of the Board

Vivek Chawla Dated: 6th August, 2021 Whole-time Director and CEO Place: Kolkata DIN - 02696336



MARAL OVERSEAS LIMITED

CIN:L17124MP1989PLC008255

Registered Office: Maral Sarovar, V. & P.O. Khalbujurg, PROUD TO BE INDIAN PRIVILEGED TO BE GLOB Tehsil Kasrawad, Distt. Khargone - 451660 Madhya Pradesh Phone: +91-7285-265401-265405; Fax: +91-7285-265406 Corporate Office: Bhilwara Towers, A -12, Sector - 1, Noida - 201 301 (U.P.) Phone: +91-120-4390300 (EPABX); Fax: +91 - 120 - 4277841



In continuation of our Newspaper Advertisement dated 30th July, 2021, NOTICE is hereby given that the 32nd Annual General Meeting ("AGM") of Maral Overseas Limited ("the Company") will be held on Tuesday, the 31st day of August, 2021 at 02:00 P.M. through Video Conferencing ("VC")/Other Audio-Visual Means ("OAVM") to transact the Ordinary and Special Businesses as set out in the Notice of the Thirty Second AGM without the physical presence of the members at the venue. The venue of the meeting shall be deemed to be Registered Office of the Company at Maral Sarovar, V. & P.O. Khalbujurg, Tehsil Kasrawad, Distt. Khargone-451660 Madhya Pradesh.

REMOTE E-VOTING / E-VOTING AND BOOK CLOSURE

In view of the continuing Covid-19 pandemic, the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") has vide its circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 read together with circular No.14/2020 dated 8th April, 2020, circular No.17/2020 dated 13th April, 2020, followed by circular No. 20/2020 dated 5th May, 2020, and Securities Exchange Board of India ("SEBI") also issued its circular SEBI/HO/CFD/CMD1/ CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020 read with circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated 15th January, 2021 ("collectively referred as Applicable Circulars") permitting the holding of AGM by the Companies through Video Conferencing/Other Audio Visual Means ("VC/OAVM") during the calendar year 2021, without the physical presence of the members at the venue. In compliance with these Applicable Circulars, the 32nd AGM of the Company shall be conducted through VC/OAVM without the physical presence of the members at the venue.

In compliance with the Applicable Circulars, the Notice of the 32nd AGM and the Annual Report of the Company including audited financial statements for the financial year 2020-21 along with Director's Report, Auditor's Report and other documents required to be attached thereto, have been sent on 6th August, 2021 through electronic mode to the members of the Company whose email addresses are registered with the Company /Depository Participant(s). The requirements of sending physical copies of the Notice of 32nd AGM and Annual Report to the Members have been dispensed vide Applicable

The Notice of the 32nd AGM and the Annual Report the Company are also available on the website of the Company at www.maraloverseas.com, on the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and also on the website of NSDL (agency for providing the Remote e-voting and e-voting during the AGM facility) i.e

www.evoting.nsdl.com. Instructions for remote e-voting and e-voting during the AGM:

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended), Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 (as amended) and the Applicable Circulars, the Company is providing facility of remote e-voting/as well as e-voting during the AGM to its Members to cast their votes electronically in respect of the business to be transacted at the AGM as set forth in the Notice of 32nd AGM provided by National Securities Depository Limited (NSDL) as the authorized agency.

The manner of e-voting for shareholders holding shares in dematerialized mode, physical mode and for shareholders who have not registered their email addresses have been provided in the Notice of AGM Login details for e-voting have been made available to the members on their registered email address. Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on **the cut-off date of 24**° August, 2021, may cast their vote electronically. A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e. 24th August, 2021 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting during the Annual General Meeting.

The remote e-voting period commences on Saturday, the 28th August, 2021 at 9:00 A.M. and ends on Monday, the 30th August, 2021 5:00 P.M. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.

The voting rights of the members shall be in proportion to their share in the paid up equity share capital of the Company as on the cut-off date i.e. Tuesday, 24th August, 2021. A person whose name is recorded in the Register of Members/Beneficial owners as on the cut-off date shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting/e-voting at the AGM and a person who is not a member as on the cut- off date should treat the Notice of AGM for information purpose only.

In case a person has become the Member of the Company after the dispatch of Notice but on or before the cut-off date i.e. 24th August. 2021 he/she may obtain login id and password by sending a request over at evoting@nsdl.co.in mentioning demat account number/folio number, PAN, name and registered address. Such Members mat cast their votes using the e-voting instructions, in the manner specified by the Company in the Notice of 32nd AGM. However, members who are already registered with NSDL for e-voting can use their existing User id and Password for casting their vote through remote e-voting/

The facility of e-voting shall be made available at the AGM and members attending the AGM, who have not already cast their vote, may cast their vote electronically on business (es) set forth in Notice of 32nd AGM. The members who have cast their vote by remote e-voting may attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote(s) again at the AGM.

Members, whose email address is not registered with the Company or with their respective Depository Participant/s, are requested to get their email address registered by following the steps as given below:

a) For Members holding shares in physical form, please send a duly signed request letter to the RTA of the Company i.e. MCS Share Transfer Agent Limited (Unit: Maral Overseas Limited). F-65. Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110020 or email at maral.investor@lnjbhilwara.com or admin@mcsregistrars.com / helpdeskdelhi@mcsregistrars.com and provide the following details/ documents for registering email address:

(a) Folio No., (b) Name of shareholder, (c) Email ID (d) Copy of PAN card (self-attested), (e) Copy of Aadhar (self-attested).

Following additional details/documents need to be provided in case of updating Bank Account

(a) Name and Branch of the Bank (b) the Bank Account type, (c) Bank Account Number, (d) MICR Code Number, and (e) IFSC Code (f) Copy of the cancelled cheque bearing the name of the first

b) For the Members holding shares in demat form, please update your email address and bank details through your respective Depository Participant/s

The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Wednesday, the 25th August, 2021 to Tuesday, the 31st August, 2021 (both days inclusive) for the purpose of AGM. The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Pranay Kumar, Practicing Company Secretary (Membership No. FCS 5013), as Scrutinizer to scrutinize the e-voting procedure in a fair and transparent

The results shall be declared not later than forty-eight hours from conclusion of the meeting by posting the same on the website of the Company at www.maraloverseas.com, website of NSDL (agency for providing the Remote e-voting/ e-voting during the AGM facility) i.e. www.evoting.nsdl.com and by filing with the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com. It shall also be displayed on the Notice Board at the Registered Office & Corporate Office of the Company. Subject to the requisite number of votes, the Resolutions shall be deemed to be passed on the date of the AGM i.e. 31st August, 2021.

In case of any queries, members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990 and 1800-224-430 or send a request at evoting@nsdl.co.in. In case of any grievance connected with facility for remote e-voting or e-voting, please contact to Ms. Pallavi Mhatre, Manager, NSDL at the designated email ID: evoting@nsdl.co.in or pallavid@nsdl.co.in or at telephone number +91 22 24994360.

Place: Noida (U.P.)

Date: 6th August, 2021

By order of the Board for Maral Overseas Limited Virendra Kumar Garg Company Secretary M. No. FCS - 7321



Abbott India Limited

CIN: L24239MH1944PLC007330 Regd Office: 3. Corporate Park, Sion-Trombay Road, Mumbai - 400 071 Tel No.: 022-5046 1000/2000/6797 8888 Fax No.: 022-5016 9400 Email Id: investorrelations.india@abbott.com Website: www.abbott.co.ir

Extract of Unaudited Financial Results for the Quarter ended June 30, 2021

(₹ in Crores except earnings per share)

		Quarter ended				
Sr. No.	Particulars	June 30, 2021 March 31, 2021		June 30, 2020	March 31, 2021	
140.		Unaudited	Audited	Unaudited	Audited	
1	Total Income from Operations	1,237.04	1,111.74	1,091.90	4,390.92	
2	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	263.59	201.88	242.50	925.95	
3	Net Profit for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	263.59	201.88	242.50	925.95	
4	Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	195.76	152.47	180.35	690.69	
5	Total Comprehensive Income for the period [comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	196.08	159.68	179.34	691.94	
6	Equity Share Capital	21.25	21.25	21.25	21.25	
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance sheet of previous year	-	-	-	2,580.91	
8	Earnings Per Share ₹ (Face value of ₹ 10/- each) (not annualised except for the year ended March)					
	Basic:	92.12	71.75	84.87	325.04	
	Diluted:	92.12	71.75	84.87	325.04	

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results is available on the Stock Exchange website at www.bseindia.com and on the Company's website at www.abbott.co.in.

> For and on behalf of the Board of Directors of Abbott India Limited

> > **Anil Joseph Managing Director** DIN: 08753233

Place: Mumbai Date: August 6, 2021

INTERNATIONAL LIMITED

CIN: L74899DL1993PLC053579 Registered Office: GF-1-A, 6, Devika Tower, Nehru Place, New Delhi- 110019

Tel: +91 120 4303500; Fax: +91 120 4082699; Website: www.rsystems.com; Email: rsil@rsystems.com

Extract of Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter and Six months Ended June 30, 2021

(Rs. in million, except per share data)

Particulars	Standalone Financial Results			Consolidated Financial Results			
	Three months ended		Six months ended	Three months ended		Six months ended	
	30.06.2021	30.06.2020	30.06.2021	30.06.2021	30.06.2020	30.06.2021	
(Refer Notes)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	
Revenue from operations	1,335.28	1,037.98	2,550.64	2,735.67	2,103.84	5,212.20	
Profit before tax and exceptional items for the period*	260.56	177.36	471.52	541.23	188.00	825.75	
Net profit after tax and exceptional items for the period*	200.69	146.87	391.36	461.64	159.71	710.48	
Total comprehensive income for the period [comprising profit for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	203.01	141.81	393.98	508.62	181.88	716.68	
Paid - up equity share capital (Face value Re. 1/- each)	119.64	119.61	119.64	119.64	119.61	119.64	
Reserves excluding Revaluation Reserve*	3,309.28	2,627.32	3,309.28	4,148.61	3,262.74	4,148.61	
Earnings per share (Face value of Re. 1/- each) (not annualised)*							
Basic	1.68	1.23	3.27	3.86	1.35	5.94	
Diluted	1.68	1.23	3.27	3.86	1.35	5.94	
* The Company does not have any extraordinary item to report for the chave navied							

The Company does not have any extraordinary item to report for the above periods # Represents balance as per the audited Balance Sheet of the previous year.

- The financial results for the quarter and six months ended June 30, 2021 have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles laid down in Indian Accounting Standard 34 'Interim Financial Reporting' ('Ind AS 34'). The above results were reviewed by the Audit Committee and have been approved by the Board of Directors at their meetings held on August 06, 2021.
- The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange websites i.e. www.bseindia.com, www.nseindia.com and Company's website at www.rsystems.com

For and on behalf of the Board of Directors of R SYSTEMS INTERNATIONAL LIMITED

Lt. Gen. Baldev Singh (Retd.) **President & Senior Executive Director** DIN: 00006966

Date : August 06, 2021

Place : NOIDA

बामर लॉरी एण्ड कं. लिमिटेड (भारत सरकार का एक उद्यम)

Balmer Lawrie & Co. Ltd. (A Government of India Enterprise)

(A Mini Ratna - I PSE) Regd.Office: 21 Netaji Subhas Road, Kolkata - 700 001, Tel. No. - (033)22225313, Fax No. - (033)22225292

email - bhavsar.k@balmerlawrie.com, website - www.balmerlawrie.com

CIN-L15492WB1924GOI004835

Extracts of Unaudited Financial Results for the Quarter ended on June 30, 2021

₹ in Lakhs									
		Standalone Consolidated				olidated			
SI. No.	Particulars	Quarter Ending June 30, 2021	Preceding Quarter Ending March 31, 2021	Corresponding 3 months Ending June 30, 2020	Previous year Ending March 31, 2021	Quarter Ending June 30, 2021	Preceding Quarter Ending March 31, 2021	Corresponding 3 months Ending June 30, 2020	Previous year Ending March 31, 2021
Ш		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
1	Total Income from Operations	49293.90	52796.59	28313.80	159276.79	49577.61	51505.23	28532.20	157824.18
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and Extraordinary items)	3088.97	10640.38	(760.33)	15664.97	2871.78	8887.83	(1078.02)	12278.41
3	Net Profit/(Loss) for the period before Tax (after Exceptional and Extraordinary items)	3088.97	10640.38	(760.33)	15664.97	2871.78	8887.83	(1078.02)	12278.41
4	Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after Exceptional and Extraordinary items)	2303.23	8235.87	(635.67)	11645.10	2086.04	6484.09	(953.36)	8259.28
5	Total Comprehensive Income/(Loss) for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	2303.23	8222.10	(635.67)	11631.33	3585.93	7360.85	(521.44)	11475.01
6	Equity Share Caiptal	17100.38	17100.38	17100.38	17100.38	17100.38	17100.38	17100.38	17100.38
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year				113672.40				135611.94
8	Earnings Per Share (of ₹ 10/- each) (for continuing and discontinued operations) (In ₹) (not annualised)								
	1. Basic:	1.35	4.82	(0.37)	6.81	2.15	4.40	(0.23)	7.04
	2. Diluted:	1.35	4.82	(0.37)	6.81	2.15	4.40	(0.23)	7.04
Notes	Notes:								

- 1) The above financial results were reviewed by the Audit Committee at their meeting held on August 06, 2021 and subsequently approved by the Board of Directors at their meeting held on August 06, 2021. As required under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Statutory Auditors have conducted Limited Review of the above financial results for the Quarter ended June 30, 2021.
- The audited accounts for the year ending March 31, 2021 are subject to the review by the C&AG under Section 143(6) of the Companies Act, 2013.
- 3) Previous period / year's figures have been regrouped / rearranged / reclassified wherever necessary
- Figures for the quarter ending March 31, 2021 are the balancing figures between the audited figures for the full financial year ended on March 31, 2021 and the published year to date reviewed figures upto the third quarter i.e. December 31, 2020 of the previous financial year.
- The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Standalone and Consolidated Quarterly Financial Results are available on Stock Exchange websites (www.nseindia.com) and (www.bseindia.com) and on the Company's website (www.balmerlawrie.com). On behalf of the Board of Directors

Director (Finance) and CFO DIN: 08217697





Date: August 06, 2021











(Sandip Das)

पायलट को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाने लॉबिंग में जुटे विधायक

जयपुर राजस्थान सत्ता और संगठन में फेरबदल की कवायद के बीच राज्य के कांग्रेसी नेताओं के एक वर्ग ने पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाने को लेकर आलाकमान पर दबाव बनाना शुरू किया

गहलोत खेमे ने मीणा व कटारिया का नाम आगे बढाया

पायलट को पीसीसी अध्यक्ष बनाने को लेकर आलाकमान के समक्ष लॉबिंग करने वालों में मीणा, गुर्जर और जाट समाज के नेता शामिल हैं . राज्य की राजनीति में इन तीनों जातियों का खासा प्रभाव है. पूर्वी राजस्थान में जहां मीणा और गुर्जर दो दर्जन विधानसभा सीटों पर प्रभाव रखते हैं, वहीं जाट समाज जोधपुर, बीकानेर और जयपुर संभाग की राजनीति को प्रभावित करता है. वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खेमे की मंशा है कि यदि आलाकमान अध्यक्ष बदलना ही चाहता है तो कार्यसमिति के सदस्य रघुवीर मीणा या राज्य सरकार में कृषि मंत्री लालचंद कटारिया में से किसी एक को यह पद दिया जाना चाहिए. इसी









गहलोत से मिल रहे मंत्री और विधायक

फेरबदल की कसरत के बीच पिछले चार दिन में लगभग सभी मंत्रियों व तीन दर्जन विधायकों ने सीएम से मुलाकात की है . सीएम से मिलने वालों में 3 निर्दलीय विधायक भी शामिल है . सूत्रों के अनुसार इन विधायकों ने गहलोत के विश्वास जताते हुए कहा कि जरूरत पड़ने पर वह सभी दिल्ली जाकर आलाकमान से मुलाकात करने को तैयार हैं . हालांकि गहलोत ने इन विधायकों से सोनिया गांधी में विश्वास रखने की बात कही है . उल्लेखनीय है कि फेरबदल को लेकर पिछले दिनों में माकन तीन दिन तक जयपुर रहे . लेकिन आलाकमान की मंशा के अनुरूप बदलाव करने को लेकर वह गहलोत को नहीं मना सके . आलाकमान ने गहलोत से बात करने के लिए कुमारी शलैजा और कर्नाटक के पीसीसी अध्यक्ष डी .के .शिवकुमार को भी जयपुर भेजा .

बीच गहलोत ने अपने विश्वस्तों को साफ कह प्रियंका गांधी को रिपोर्ट दी है . श्रीवास्तव पूर्व नियुक्तियों को लेकर आलाकमान द्वारा की दिया कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी बिना में युपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी व प्रियंका जा रही कसरत के बीच पायलट खेमा सिक्रय उनकी मर्जी के राजस्थान को लेकर कोई गांधी के ओएसडी रहने के साथ ही रायबरेली हो गया. पायलट का मानना है कि फैसला नहीं करेंगी . गहलोत लगातार सोनिया संसदीय क्षेत्र का जिम्मा संभाल चुके हैं . वह आलाकमान अपने वादे के अनुरूप उनके गांधी के सम्पर्क में है . राजस्थान फाउंडेंशन के राजीव गांधी फाउंडेशन में भी काम कर चुके समर्थकों को सत्ता और संगठन में अध्यक्ष धीरज श्रीवास्तव ने पिछले दिनों राज्य हैं .**पायलट खेमा सिऋय हुआ**- राज्य समायोजित करेगा. पायलट अगले माह से की राजनीति को लेकर कांग्रेस महासचिव मंत्रिमंडल में फेरबदल और सँगठन में नई राज्य का दौरा शुरू कर सकते हैं.

उत्तराखंड : भाजपा के मास्टर स्ट्रीक का दिख रहा असर प्रमुख विपक्षी दल ने भाजपा

सिद्धू के विधायक जलालपुर को समर्थन से छिड़ी नई चर्चा पटियाला/चंडीगढ़. कांग्रेस पंजाब प्रदेश प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने घनौर विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक मदन लाल जलालपुर से मुलाकात की और उनका समर्थन किया. कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में

राजनीति गरमाई

वह सुनिश्चित करेंगे कि जलालपुर जीत हासिल करें. वहीं, सिद्धू के इस बयान के बाद राजनीति गरम हो गई है.

दरअसल, कैप्टन अमरिंदर सिंह के कभी नजदीकी रहे जलालपुर पर रेत माफिया, नकली शराब बिकवाने आदि के आरोप लगते रहे हैं. शिरोमणि अकाली दल के पूर्व मंत्री और मुख्य प्रवक्ता डॉ. दलजीत सिंह चीमा ने कहा कि जिनके बारे में सिद्ध खुद कहते रहे हैं कि वह माफिया के खिलाफ हैं और इसे एक्सपोज किया जाना चाहिए, उसी विधायक के घर जाकर नवजोत सिद्धू ने उसे समर्थन दिया. सिद्धू ने कहा कि मदनलाल जलालपुर उम्मीदवार होंगे.

सिद्ध ने बुधवार को जलालपुर के आवास पर कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में वह सुनिश्चित करेंगे कि जलालपुर जीत हासिल करें. वह घनौर सीट के चुनाव को जलालपुर का नहीं बल्कि अपना चुनाव मान कर चलेंगे. इससे चर्चा



गतिविधियों में शामिल राजनेताओं पर कार्रवाई की मांग करते रहे हैं, वहीं जलालपुर को इस तरह वह किस लिहाज से सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि जलालपुर पर भी माइनिंग और अवैध शराब गतिविधियों में संलिप्त लोगों से संबंध रखने के आरोप लगते रहे हैं. पटियाला जिला से संबंधित

कांग्रेसी विधायकों में से मदन लाल जलालपुर ही पहले ऐसे विधायक थे, जिन्होंने सिद्ध को प्रदेश कांग्रेस प्रधान बनाए जाने की पैरवी की थी. उसके बाद सिद्धू बतौर प्रधान ताजपोशी होने से पहले ही जलालपुर के घर चले गए थे. जलालपुर द्वारा इस तरह सिद्धू की खुलेआम सपोर्ट ने सीएम सिटी में कांग्रेसी गलियारों में चर्चा छेड़ दी थी कि ऐसा करके उन्होंने कै. अमरिंदर सिंह और सांसद परनीत कौर की एक तरह से खिलाफत की है.जलालपुर इससे पहले भी कई बार चर्चा में बने रहे हैं.

🖣 वहीं, अकाली नेता चीमा ने हैरानी जताते हुए सिद्धू से कहा कि वह विपक्षी पार्टियों को छोड़ दें, अपनी बात भी छोड़ दें. थोड़े दिन पहले मदन लाल जलालपुर के हलके के कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एक बड़ी रैली करके आरोप लगाया था कि उनका विधायक भ्रष्ट है . रेत माफिया से मिला हुआ है और नकली शराब बिकवाता है . यदि आप ठीक कहते हो तो आपने अपने विधायक के खिलाफ क्या कार्रवाई की है . डॉ . चीमा ने कहा कि ओहदों के साथ कैसे चेहरे बदल जाते हैं यह नवजोत सिद्धू को देखकर आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है .



पेश कर दी है. कुमाऊं मंडल से युवा नेतृत्व को आगे करने के कदम को भाजपा अपना मास्टर स्ट्रोक मान रही है. हालांकि धामी की काट के तौर पर कांग्रेस नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में गणेश गोदियाल को आगे कर चुकी है, लेकिन विधायकों के साथ ही युवा वर्ग में आगे बढ़ने को लेकर नया जोश उछाले मारने से पार्टी के भीतर ख़ुशी के साथ उम्रदराज नेताओं में बेचैनी भी

बदलने के मुद्दे पर कांग्रेस हमलावर है ही, अब पुष्कर सिंह धामी की मुश्किलों में इजाफा करने के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है. धामी सरकार के कदमों पर बारीक नजर रखी जा रही है मुख्यमंत्री धामी के एक माह के कार्यकाल पर भी कांग्रेस जमकर निशाना साध चुकी है. महज एक माह में लिए गए धामी सरकार के फैसलों पर भी कांग्रेस प्रहार करने का मौका चुक नहीं रही है साथ ही नए तेवरों के साथ सड़कों पर भी उतरने की तैयारी है .

नोटिस जारी होने के पहले ही छाबड़ा ने दिया पार्टी से इस्तीफा

चंडीगढ़. चंडीगढ़ कांग्रेस के पर्व अध्यक्ष प्रदीप छाबडा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया. पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया जाना था.

और विधायकों में भी भाजपा की इस

रणनीति से छटपटाहट महसूस की जा

रही है. ऐसे में कांग्रेस अब सीधे

मुख्यमंत्री धामी और सरकार पर हमला

2022 के विधानसभा चुनाव को

लेकर कांग्रेस और भाजपा दोनों ने

ही तैयारी प्रारंभ कर दी हैं. एकदूसरे

की रणनीतिक काट के लिए दोनों

ही दलों की ओर से बड़े फेरबदल

को अंजाम दिया जा चुका है.

भाजपा ने धामी को मुख्यमंत्री

बनाकर कांग्रेस के लिए नई चुनौती

बोलने की तैयारी में है.

शुक्रवार सुबह प्रदीप छाबड़ा ने एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कहा है कि वे कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं. वह जल्द ही कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखेंगे, जिसमें वह इस्तीफे की डिटेल से जानकारी देंगे. इससे पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी की नई कार्यकारिणी की पहली बैठक में पूर्व अध्यक्ष प्रदीप छाबड़ा का मुद्दा छाया रहा था. सेक्टर-35 स्थित कांग्रेस भवन में हुई बैठक में छाबड़ा को भी आने का निमंत्रण दिया गया था, लेकिन



नहीं आए. इस दौरान सर्वसम्मति से प्रदीप छाबडा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया. इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन बंसल भी मौजूद थे. पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता एचएस लक्की ने बताया कि बैठक में पार्टी ने प्रदीप छाबड़ा की बयानबाजी का कड़ा संज्ञान लिया है. बैठक में कहा गया कि प्रदीप छाबड़ा खुले तौर पर पार्टी नेतृत्व की आलोचना कर रहे हैं. इससे पार्टी की छवि और आने वाले नगर निगम चुनाव में पार्टी

की संभावनाओं को नकसान पहुंच सकता है. पार्टी विरोधी गतिविधियों करने और पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया.

मोबाइल टावर

HP मोबाइल टॉवर (ISO प्रमाणित) द्वारा अपनी खाली जमीन, छत, प्लाट, खेत पर 4G-5G मोबाइल टॉवर लगवाएं. एडवांस 80 लाख, किराया 30,000, नौकरी 35,000+बाइक.

07307119894

वे निजी कारणों का हवाला देकर

ड्यूलक्स ने एयर क्लीन बायोबेस्ड किया पेश

मुंबई, 6 अगस्त. पेंट के लिए अपने उत्साह के साथ इनोवेशन एवं सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाते हुए अक्जोनोबल इंडिया ने आज अपने सबसे एक्सक्लुसिव, सुपर प्रीमियम इंटीरियर इमल्शन का लॉन्च किया, जो स्वास्थ्य एवं सेहत को सर्वोपरि रखता है.

यह नया इनोवेशन 'ड्युलक्स बेटर लिविंग एयर क्लीन बायोबेस्ड' भारत का पहला यू.एस.डी.ए (यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर) सटिफाईड बायो-बेस्ड पेंट है और इनडोर हवा को शुद्ध करता है ताकि आपका घर ज्यादा सेहतमंद रहे. ड्युलक्स बेटर लिविंग एयर क्लीन बायो बेस्ड में 26 प्रतिशत बायो-बेस्ड सामग्री (जो सस्टेनेबल वनस्पति आधारित स्रोतों से मिलती है) है. इसके अलावा, इसमें प्राकृतिक तत्वों के गुण जैसे एक्टिव बैंबू चारकोल एवं टी ट्री ऑयल हैं, जो इसे पेंट के लिए एक स्मार्ट व सस्टेनेबल समाधान बनाते हैं. प्राकृतिक सस्टेनेबल फॉर्मुलेशन के स्वास्थ्य व सेहत के पायदों के लिए अक्जोनोबल का प्रोप्रायटरी इनोवेशन द प्योर एयर टेक्नॉलॉजी है. दीवार एवं छत पर पेंट होने के बाद यह टेक्नॉलॉजी घर के वातावरण में इनडोर हवा में मौजूद प्रदूषक तत्वों (जैसे दैनिक कामोंकुकिंग, धूम्रपान, एवं घरेलू सामान जैसे कारपेट, फ्नींचर आदि द्वारा उत्सर्जित फार्मेल्डिहाईड एवं वीओसी, यानि वोलेटाईल ऑर्गेनिक कंपाउंड) को न्यूट्रलाईज़ कर देती है.

सेंसेक्स 215 अंक और निफ्टी 43 अंक लुढ़का

मुंबई, 6 अगस्त (वार्ता). भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नीतिगत दरों को यथावत बनाये रखने से घर, कार और व्यक्तिगत ऋग के सस्ता होने की उम्मीद धूमिल होने से बैंकिंग, वित्त, एनर्जी, रियलटी, धातु आदि समूहों में निवेशकों की बिकवाली के दबाव शेयर बाजार चार दिनों से जारी तेजी को बनाये रखने में असफल रहा जिससे

तेजी पर लगा ब्रेक

बीएसई का सेंसेक्स 215.12 अंक टूटकर 54277.72 अंक पर और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज(एनएसई) का निफ्टी 42.60 अंक गिरकर 16252.20 अंक पर रहा.बीएसई में दिग्गज कंपनियों में जहां बिकवाली देखी गयी वहीं छोटी और मझौली कंपनियों में लिवाली का जोर रहा जिसके बल पर बीएसई का मिडकैप 0.23 प्रतिशत बढ़कर 23204.72 अंक पर और



स्मॉलकैप 0.28 प्रतिशत चढ़कर 26805.92 अंक पर रहा. बीएसई में कुल 3329 कंपनियों में कारोबार हुआ जिसमें से 1821 हरे निशान में और 1391 लाल निशान में रहा जबिक 117 में कोई बदलाव नहीं हुआ. बीएसई का सेंसेक्स लगभग सपाट 54492.17 अंक पर खुला. शुरूआती कारोबार में ही यह लिवाली के बल पर 54633.58 अंक के उच्चतम स्तर तक चढ़ा लेकिन रिजर्व बैंक की मौद्रिक

नीति की घोषणा के बाद शुरू हुयी बिकवाली से यह उबर नहीं पाया और बिकवाली के दबाव में यह 54210.33 अंक के निचले स्तर तक उतर गया. अंत में यह पिछले दिवस के 54492.84 की तुलना में 215.12 अंक अर्थात 0.39 प्रतिशत टूटकर 54277.72 अंक पर रहा. एनएसई का निफ्टी 10 अंकों की बढ़त के साथ अब तक रिकार्ड स्तर 16304.40 अंक पर खुला. सत्र के दौरान यह 16336.75 अंक के उच्चतम और 16223.30 अंक के निचले स्तर के बीच रहा. सेंसेक्स में गिरावट में रहने वाली कंपनियों में रिलायंस 2.07 प्रतिशत, अल्ट्राटेक 1.70 प्रतिशत, स्टेट बैंक 1.40 प्रतिशत, टाटा स्टील 1.22 प्रतिशत, एल टी 1.04 प्रतिशत, एक्सिस बैंक 1.03 प्रतिशत, नेस्ले इंडिया 1.02 प्रतिशत, एचसीएलटेक 0.99 प्रतिशत, पेंट्स् 0.68 प्रतिशत, आईसीआईसीआई बैंक 0.67 प्रतिशत, टाइटन 0.46 प्रतिशत शामिल है.

कांग्रेस में टिकट के दावेदारों की होने लगी परख

लेकर कांग्रेस में पार्टी की अंदरूनी हलचल तेज हो गई. सूबे में विधानसभा सीटों के लिए पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं ने आवेदन कर दिए. लखनऊ में दावेदारों का डेरा है. पार्टी प्रदेश नेतृत्व दावेदारों की समीक्षा करेगा. इसके बाद तीन-तीन प्रत्याशियों का पैनल बनेगा. उनमें जो पार्टी की कसौटी पर अधिक वजूदवाला दिखेगी, उसे पार्टी चुनाव लड़ने के लिए ग्रीन सिग्नल देते हुए टिकट देगी.

लखनऊ पहुंचे टिकट दावेदारों की प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय क्मार लल्लु ने नब्ज टटोली. विधानसभा सीटों पर टिकट दावेदारों ने अपने अपने पक्ष में समीकरण बताते हुए जीत का दावा भी किया. कांग्रेसी हल्कों की माने तो पार्टी ने विस चुनाव को लेकर सपा-बसपा से गठबंधन की संभावनाओं को नकारा. साफ कहा कि इस बार पुरानी गलती नहीं दोहराएंगे.



तीन–तीन प्रत्याशियों का पैनल बनेगा

मंगलवार से यूपी की राजधानी लखनऊ में विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों को टिकट के लिए मंथन शुरु हो गया है. प्रदेश नेतृत्व ने चुनाव से काफी पहले मजबूत दावेदारों की तलाश शुरु कर दी है. टिकट दावेदारों की टोह लेने के लिए कांग्रेस हाईकमान ने सभी को लखनऊ बुलाया था. लिहाजा मुरादाबाद के जिलाध्यक्ष असलम खुर्शीद व शहर

टिकट दावेदारी लखनऊ में 10 माल एवेन्यू दफ्तर पहुंचे.

टिकट को जोड़तोड़

जिन कांग्रेस नेताओं ने मेरढ जिले की सात विधानसभा सीटों पर अपनी-अपनी दावेदारी की है, उसमें अभी तक मेरठ कैंट से अखिल कौशिक, सरदार मंजीत सिंह कोछड़, राजकेसरी, कमल जायसवाल और रोबिन नाथ गोलू ने बॉयोडाटा भेजा है. इनमें राजकेसरी और सरदार मंजीत सिंह कोछड़ की दावेदारी अधिक मजूबत मानी जा रही है . मेरढ शहर सीट से अनिल शर्मा, रंजन शर्मा पार्षद, शहजाद यूसुफ की दावेदारी है. इनमें शहजाद युसूफ की दावेदारी मजबूत है.

मराल ओवरसीज लिमिटेड

सीआईएन: L17124MP1989PLC008255 पंजीकृत कार्यालयः मराल सरोवर, ग्राम एवं पोस्ट खलबुर्जुग तहसील कसरावाद, जिला खरगोन - 451660 (मध्य प्रदेश) फोनः +91-7285-265401, 265405; फैक्सः +91-7285-265406

कॉर्पोरेट कार्यालय: भीलवाड़ा टॉवर्स, ए-12 सेक्टर - 1, नोएडा - 201301 (उ.प्र.) फोनः +91-120-4390300 (EPABX); फैक्सः +91-120-4277841

32वीं वाषिक आम बैठक,

रिमोट ई-वोटिंग / ई-वोटिंग तथा पुस्तक बंदी की सूचना

लिमिटेड ('कम्पनी') की 32वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') मंगलवार, 31 अगस्त, 2021 को अपराह 2:00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग **("वीसी")** / अन्य ऑडियो विजुअल साधनों **("ओएवीएम")** के माध्यम से, कार्यक्रम स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना बत्तीसवीं एजीएम की सूचना में निर्दिश्ट सामान्य एवं विशेष व्यवसायों के सम्पादन हेतु आयोजित की जाएगी। बैठक का स्थान कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय मराल सरोवर, ग्राम एवं पोस्ट खलबुजुर्ग, तहसील कसरावद, जिला खरगोन — 451660, मध्य प्रदेश माना जाएगा जारी कोविड—19 महामारी के दृष्टिकोण से, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय **("एमसीए")** ने अपने परिपन्न सं. 02/2021 दिनांकित 13 जनवरी, 2021 के साथ पठित परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांकित 8 अप्रैल, 2020, परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांकित 13 अप्रैल, 2020, उसके पश्चात् परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांकित 5 मई, 2020 तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड **("सेबी")** ने भी अपना परिपन्न SEBI/HO/CFD/ CMD1/CIR/P/2020/79 दिनांकित 12 मई, 2020 के साथ पठित परिपन्न संख्या SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/1 दिनांकित 15 जनवरी, 2021 ("सामृहिक रूप से लागू परिपत्रों के रूप में संदर्भित") के हवाले से कैलेंडर वर्ष 2021 में कम्पनियों के एजीएम का आयोजन, आयोजन स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों **("वीसी/ओएवीएम")** के माध्यम से आयोजित करने की अनुमति दी है। इन लागू परिपत्रों के अनुपालन में, कम्पनी की 32वीं वार्षिक आम बैठक आयोजन स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वीसी/

लागू परिपत्रों के अनुपालन में, 32वीं एजीएम की सूचना एवं कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट जिसमें वित्तीय वर्ष 2020–21 के अंकेक्षित वित्तीय विवरण शामिल हैं. निदेशकों की रिपोर्ट अंकेक्षकों की रिपोर्ट इसके अतिरिक्त अन्य वांछित संलग्नक दस्तावेजों सहित. 6 अगस्त 2021 को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा कम्पनी के सदस्यों को, जिनका ईमेल पता कम्पनी / डिपॉजिटरी प्रतिभागी(ऑ) के साथ पंजीकृत है, प्रेषित कर दी गई हैं। सदस्यों को 32वीं एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट की मौतिक प्रतियां भेजने की आवश्यकता को लागू परिपत्रों

32वीं एजीएम की सूचना तथा कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट <u>www.maraloverseas.com</u> पर, स्टॉक एक्सचेंजी अर्थात् बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट <u>www.bseindia.com</u> एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com पर तथा एनएसडीएल (रिमोट ई-वोटिंग एवं एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करने हेतु एजेंसी) की वेबसाइट अर्थात् <u>www.evoting.nsdl.com</u> पर भी उपलब्ध है।

रिमोट ई-वोटिंग एवं एजीएम के दौरान ई-वोटिंग हेतु निर्देश:

कम्पनी अधिनियम, 2013 की घारा 108 के साथ पठित कम्पनी (प्रबंघन और प्रशासन नियम), 2014 (यथा संशोधित) के नियम 20 एवं सेबी (सुचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 (यथा संशोधित) के विनियम 44 तथा लागू परिपत्रों के अनुपालन में, कम्पनी अपने सदस्यों को, 32वीं एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट व्यवसायों के एजीएम में संपादित होने के सम्बन्ध में, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) – अधिकृत एजेंसी के माध्यम से, रिमोट ई-वोटिंग/के साथ एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के द्वारा अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक तौर पर डालने की सुविधा प्रदान कर रही है।

डिमैटेरियलाइज्ड तौर पर, भौतिक तौर पर शेयर रखने वाले धारक तथा ऐसे शेयरधारक जिन्होंने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, हेतु ई-बोटिंग की प्रणाली 32वीं एजीएम की सूचना में प्रदान की गई है। ई-वोटिंग हेतु लॉगिन विवरण सदस्यों को उनके पंजीकृत

24 अगस्त, 2021 की कट-ऑफ तिथि के अनुसार, मौतिक रूप में या डीमैटेरियलाइज्ड रूप में शेयर रखने वाले सदस्य, 24 अगस्त, 2021 के अनुसार डिपॉजिटरी द्वारा अनुरक्षित लामार्थियों के रजिस्टर में दर्ज हो, केवल वही रिमोट ई-वोटिंग के साथ ही वार्षिक आम बैठक के दौरान वोटिंग की सुविधा प्राप्त करने हेतु अधिकृत होगा।

रिमोट ई-वोटिंग की अवधि शनिवार, 28 अगस्त, 2021 को पूर्वोह 9:00 बजे से आरम्भ होगी तथा सोमवार, 30 अगस्त, 2021 को अपराह 5:00 बजे समाप्त होगी। इसके पश्चात् रिमोट ई—वोटिंग मॉड्यूल एनएसडीएल द्वारा निष्क्रिय कर दिया जाएगा। उक्त तिथि एवं समय के उपरान्त रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।

सदस्यों के वोटिंग का अधिकार **कट-ऑफ तिथि अर्थात् मंगलवार, 24 अगस्त 2021** को कम्पनी की प्रदत्त समता शेयर पूँजी में उनकी भागेदारी के अनुपात में होगा। वह व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों / लामार्थी स्वामी के रजिस्टर में कट–ऑफ तिथि को दर्ज हो, केवल वहीं रिमोट ई-वोटिंग/एजीएम में ई-वोटिंग की सुविधा का लाम उठाने हेतु अधिकृत होंगे और जो व्यक्ति कट-ऑफ तिथि को सदस्य नहीं है, उन्हें एजीएम की सूचना को जानकारी मात्र के उद्देश्य से व्यवहृत करना चाहिए।

यदि कोई व्यक्ति सूचना के प्रेषण के पश्चात् परन्तु कट-ऑफ तिथि अर्थात् 24 अगस्त, 2021 के पूर्व कम्पनी का सदस्य बनता है तो वह अपने में डीमैंट अकाउंट संख्या /फोलियो संख्या, पैन, नाम एवं पंजीकृत पते के उल्लेख सहित evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध मेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। ऐसे सदस्य कम्पनी द्वारा 32वीं एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट तरीके से, ई-बोटिंग निर्देशों का उपयोग करके अपने वोट डाल सकते हैं। हालांकि, जो सदस्य पहले से ही ई-वोटिंग हेतु एनएसडीएल के साथ पंजीकृत हैं, वे रिमोट ई-वोटिंग / एजीएम में ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डालने के लिए अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं।

ई-वोटिंग की सविधा एजीएम में उपलब्ध कराई जाएगी एवं एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य, जिन्होंने पहले से अपना वोट नहीं डाला है, 32वीं एजीएम सूचना में निर्दिष्ट व्यवसाय(ओं) पर अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से डाल सकते हैं। जिन सदस्यों ने रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे एजीएम में सम्मिलित हो सकते हैं, परन्तु एजीएम में पुनः अपना वोट डालने हेतु अधिकृत नहीं होंगे।

वे सदस्य, जिनका ईमेल पता कम्पनी या उनके सम्बद्ध डिपॉजिटरी प्रतिभागी/ओं के साथ पंजीकृत नहीं है, उनसे अनुरोध है कि नीचे दिए गए चरणों का पालन करके अपना ईमेल पता पंजीकृत करें:

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए, कृपया कम्पनी के आरटीए अर्थात् एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड (यूनिटः मराल ओवरसीज लिमिटेड), एफ-65, ओखला इंडरिट्रयल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली-110020 को एक विधिवत हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र भेजें अथवा <u>maral.investor@lnjbhilwara.com/</u> अथवा admin@mcsregistrars.com / helpdeskdelhi@mcsregistrars.com पर ईमेल भेजें एवं ईमेल पता पंजीकृत करने हेतु निम्नलिखित विवरण/दस्तावेज उपलब्ध करायें:

(क) फोलियो संख्या, (ख) शेयरधारक का नाम, (ग) ईमेल पता, (घ) पैन कार्ड की प्रति (स्व—सत्यापित), (ङ) आधार की प्रति

बैंक खाता विवरण अद्यतन करने के मामले में निम्नलिखित अतिरिक्त विवरण / दस्तावेज प्रदान करना वांछित है

(क) बैंक का नाम एवं शाखा, (ख) बैंक खाता का प्रकार, (ग) बैंक खाता संख्या, (घ) एमआईसीआर कोड संख्या, (ङ) आईएफएससी कोड, तथा (च) प्रथम शेयरधारक के नाम वाले रद्द किए गए चेक की प्रति

डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए, कृपया अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी/ओं के माध्यम से अपना ईमेल पता कम्पनी के सदस्यों का रजिस्टर तथा शेयर अंतरण पुस्तकें, एजीएम के उद्देश्य से, बुधवार, 25 अगस्त, 2021 से मंगलवार,

31 अगस्त, 2021 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेंगे।

कम्पनी के निदेशक मंडल ने ई-वोटिंग प्रक्रिया की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच हेतु श्री प्रणव कुमार, संव्यावसायिक कम्पनी

परिणाम की घोषणा बैठक के समापन से अड़तालीस घंटे के अन्दर, कम्पनी की वेबसाइट <u>www.maraloverseas.com</u> पर, एनएसडीएल (रिमोट ई-वोटिंग/एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध कराने वाली एजेंसी) की वेबसाइट अर्थात् www.evoting.nsdl.com पर प्रदर्शित कर तथा स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात् बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com पर एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड <u>www.nseindia.com</u> में फाइलिंग कर की जाएगी। इन्हें कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय एवं कॉर्पोरेट कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित किया जाएगा। मतों की अपेक्षित संख्या के शर्तानुरूप, प्रस्तावों को एजीएम की तिथि

किसी भी प्रश्न के मामले में, सदस्य www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध शेयरधारकों हेतु 'फ्रीक्वेंटली आस्कड क्वेश्चनसं (एफएक्यू) एवं शेयरधारकों हेतु ई-वोटिंग यूजर मैन्युअल संदर्भित कर सकते हैं अथवा टोल फ्री नंबर 1800-222-990 एवं 1800–224–430 पर फोन कर सकते हैं अथवा <u>evoting@nsdl.co.in</u> पर अनुरोध भेज सकते हैं। रिमोट ई-वोटिंग या ई-वोटिंग की सुविधा से जुड़ी किसी भी शिकायत हेतु, कृपया सुश्री पल्लवी म्हात्रे, प्रबंधक, एनएसडीएल को निर्दिष्ट ईमेल आईडीः evoting@nsdl.co.in अथवा pallavid@nsdl.co.in पर या टेलीफोन नंबर +91 22 24994360 पर संपर्क करें।

कृते गराल ओवरसीज लिमिटेड

सदस्यता संख्या एफसीएस - 7321

विरेन्द्र कुमार गर्ग कम्पनी सचिव

स्थान : नोएडा (उ.प्र.) दिनांक: 6 अगस्त, 2021



